

**January 09, 2025**

**The Manager,  
Department of Corporate Services  
BSE Limited**  
Floor 25, P.J. Towers,  
Dalal Street, Mumbai – 400 001  
BSE Scrip code – [532541]  
Equity ISIN INE591G01017  
Non-Convertible Bond ISIN INE591G08012

**The General Manager,  
Department of Corporate Services  
The National Stock Exchange of India Limited**  
Exchange Plaza,  
Plot No. C/1, G Block, Bandra Kurla Complex,  
Bandra, Mumbai – 400 051  
NSE Symbol – [COFORGE]

**Subject: Newspaper publication – Intimation of loss of Share certificate**

Dear Sir/Ma'am,

We wish to inform you that pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has published the “Notice of loss of Share certificate” in the following newspapers:

- a) Business Standard (Hindi)
- b) Business Standard (English)

Copy of newspaper clippings are attached.

Kindly take the same into record.

Thanking you,

Yours truly,

For **Coforge Limited**

**Barkha Sharma  
Company Secretary  
ACS 24060**

Encl: as above

**Cirela Sastra Centre, Bikaner (Raj.) D-8205**  
E-mail ID - cs8205@pnb.co.in

### APPENDIX IV [See Rule 8(1)] POSSESSION NOTICE

Whereas, The undersigned being the Authorized Officer of the Punjab National Bank under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a demand notice dated 02/09/2024 calling upon the Borrowers/Guarantors/Mortgagors/ M/s MADAN TRADING CO., through its proprietor Smt. Kanta Devi Khatri W/o Uda Dass Khatri & Smt Kanta Devi Khatri W/o Uda Dass Khatri, Madan Mohan S/o Uda Dass Khatri and Om Prakash Khatri S/o Uda Dass Khatri to repay the amount mentioned in the notice that is Rs. 61,20,094.36 (Rupees in words Sixty One Lacs Twenty Thousand Ninety Four and Paise Thirty Six Only) as on 31/08/2024 with further interest & charges until payment in full within 60 days from the date of notice/date of receipt of the said notice. The borrower/ mortgagor having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower/ mortgagor and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 3 of the said Rules on this 08th day of January of the year 2025. The borrower/ mortgagor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Punjab National Bank, B/o Rani Bazar, Bikaner for an amount Rs. 61,20,094.36 (Rupees in words Sixty One Lacs Twenty Thousand Ninety Four and Paise Thirty Six Only) as on 31/08/2024 with further interest & charges, until payment in full. The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

#### DESCRIPTION OF IMMOVABLE PROPERTIES

All that part and parcel of commercial property of M/S Madan Trading Co., consisting of land & building, structures, erections, installations, etc. situated at H-66, Karai Industrial Area, Phase-1, Bikaner-334001. Admeasuring 700 SQ.MTR. Bounded by: On the North by: H-65, On the South by: H-67, On the East by: G1-63/64, On the West by: ROAD 18 MTR Date: 08/01/2025 Place: Bikaner Authorized Officer, Punjab National Bank

### FORM NO. INC-26

[Pursuant to rule 30 the Companies (Incorporation) Rules, 2014]

Advertisement to be published in the newspaper for change of registered office of the company from one state to another

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT  
(REGIONAL DIRECTOR, NORTHERN REGION)

In the matter of the Companies Act, 2013, Section 13(4) of Companies Act, 2013 and Rule 30(6) (a) of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

#### AND

In the matter of ADANI SOLAR ENERGY AP SEVEN PRIVATE LIMITED having its registered office at C-105 Anand Niketan, New Delhi, Delhi - 110021.

..... Applicant Company

Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Central Government under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra ordinary general meeting held on 23<sup>rd</sup> December, 2024 to enable the company to change its Registered office from "State of NCT of Delhi" to "State of Gujarat".

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may either on MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region at the address B-2 Wing, 2<sup>nd</sup> Floor, Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003, within Fourteen days from the date of publication of this notice with a copy of the applicant company at its registered office at the address mentioned below:

Registered Office: C-105 Anand Niketan, New Delhi, Delhi - 110021, India.

For and on behalf of

Adani Solar Energy AP Seven Private Limited  
CIN: U74999DL2018PTC331534

Sd/-  
Prerak Thekadi Place: Delhi  
(Director) Date: January 08, 2025  
DIN: 09221579

### FORM NO. INC-26

[Pursuant to rule 30 the Companies (Incorporation) Rules, 2014]

Advertisement to be published in the newspaper for change of registered office of the company from one state to another

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT  
(REGIONAL DIRECTOR, NORTHERN REGION)

In the matter of the Companies Act, 2013, Section 13(4) of Companies Act, 2013 and Rule 30(6) (a) of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

#### AND

In the matter of ADANI SOLAR ENERGY JODHPUR FOUR LIMITED having its registered office at C-105, Anand Niketan, New Delhi, Delhi - 110021.

..... Applicant Company

Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Central Government under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra ordinary general meeting held on 23<sup>rd</sup> December, 2024 to enable the company to change its Registered office from "State of NCT of Delhi" to "State of Gujarat".

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may either on MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region at the address B-2 Wing, 2<sup>nd</sup> Floor, Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003, within Fourteen days from the date of publication of this notice with a copy of the applicant company at its registered office at the address mentioned below:

Registered Office: C-105 Anand Niketan, New Delhi, Delhi - 110021, India

For and on behalf of

Adani Solar Energy Jodhpur Four Limited  
CIN: U74999DL2017PLC320151

Sd/-  
Prerak Thekadi Place: Delhi  
(Director) Date: January 08, 2025  
DIN: 09221579

**ANAND RATHI** Anand Rathi Global Finance Ltd Express Zone, A Wing, 10th Floor, Western Express Highway, Diagonally Opposite Oberoi Mall, Goregaon (E), Mumbai -400063.

(1) Mr. Ajay Kumar Gupta (Co-Borrower), (2) Mr. Abhishek Gupta (Co-Borrower) Date 07.01.2025  
(3) All legal heir of deceased Mahesh Chand Gupta (Co-Borrower), (4) Mrs. Meena Gupta (Co-Borrower) (5) Ms. Sakshi Gupta (Co-Borrower) (6) A. Kiranwadi Gali, Bazar, Ghaziabad: 201001, UTTAR PRADESH.  
SUB-Redemption Notice of 30 days for redemption/sale of immovable assets under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 ("Act") read with proviso to rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 ("Rules").  
REF: Loan Account No. ANRFL/SAFE-LAP/DEL/1158  
Dear Sir/ Madam,  
This has reference to all earlier legal action initiated by Anand Rathi Global Finance Limited for the purpose of enforcing the secured assets for recovery of outstanding dues in exercise of power under Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and the Rule made there under. You have failed to make payment towards the discharge of your liabilities to the Loan Account No. ANRFL/SAFE-LAP/DEL/1158 as proposed to sell the below mentioned immovable secured asset through E-Auction or Private Treaty under the provisions of the SARFAESI Act, 2002. It is again brought to your notice that possession of the property will be taken once the Order is received from the Court.  
This notice is given to you the addressee in compliance of rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 towards the right to redemption under SARFAESI Act by paying the outstanding dues by you with cost and charges and expenses and further contractual interest till payment, due and payable against your loan account at any time on or before 30 days from this notice as the present notice would end on expiry of 30 days from the date of receipt of this Notice and you are hereby informed and notified that the said property in question shall be sold by way of e-auction or through private treaty.  
It may be added that an amount of Rs.29,63,739/- (Rupees Twenty Nine Lakh Sixty Three Thousand Seven Hundred and Thirty Nine Only) is per the Demand notice under sub-section 2 of section 13 of SARFAESI Act 2002 dated 25/10/2024, outstanding and payable along with further contractual interest till payment, due and payable against your loan account, which you may please take a note of.  
Property Details: Plot of Area measuring 200 sq yds, situated at Kiran Wali Gali, Choti Bajarai Railway Road Ghaziabad U.P. East. Plot of Rajendra West. Plot of Purnima South. Plot of Rameshwar For and on behalf of North: Gali 12 Ft Road South: Plot of Rameshwar Authorized Officer(AnandRathi Global Finance Limited)

**IN THE MUMBAI DEBTS RECOVERY TRIBUNAL NO. II (Ministry of Finance)**  
3<sup>rd</sup> Floor, Telephone Bhavan, Strand Road, Colaba, Mumbai - 400 005  
ORIGINAL APPLICATION NO. 17 OF 2024

HDFC Bank Limited ... Applicant  
V/S. Sumit Majumdar ... Defendant

**SUMMONS**  
WHEREAS O.A. No. 17 OF 2024 was filed before Hon'ble Presiding officer on 19.02.2024 WHEREAS this Hon'ble Tribunal is pleased to issue summons on the said application under section 19(4) of the Act, (OA) filed against you for recovery of debts of Rs. 26,53,342.88/- (Rupees Twenty Six Lakh Fifty Three Thousand Three Hundred Forty Two Point Eight Eight Paise Only). (Application along with documents etc. annexed). Whereas the service of summons could not be affected in ordinary manner and whereas the Application for substituted service has been allowed by this Hon'ble Tribunal. In accordance with sub-section (4) of section 19 of the Act, you, the Defendants are directed as under:

- To show cause within 30 thirty days of the service of summons as to why relief prayed for should not be granted.
- To disclose particulars of properties of assets other than properties and assets specified by the applicant under serial Number 3(A) of the Original Application.
- You are restrained from dealing with or disposing if secured assets of such other assets and properties disclosed under serial Number 3(A) of the Original Application, pending hearing and disposal of the application for attachment of the properties.
- You shall not transfer by way of sale, lease or otherwise, except in the ordinary course of business any of the assets over which security interest is created and/or other assets and properties specified disclosed under Serial no. 3A of the Original Application without the prior approval of the Tribunal.
- You shall be liable to account for the sale proceeds realized by sale of secured assets or other assets and properties in the ordinary course of business and deposit such sale proceeds in the account maintained with bank of financial institution holding security interest over such assets.
- You are also directed to file written statement with a copy thereof furnished to the applicant and to appear before DRT-II on 18/02/2025 at 11.00 a.m. Failing which the application shall be heard and decided in your absence.  
Given / Issued under my hand and the seal of this Tribunal on this 05<sup>th</sup> day of July, 2024.

To, Sd/- Registrar DRT-II, Mumbai  
Sumit Majumdar  
Having address at: L-2/10, Spagheti Sec-15, ... Defendant  
Kharghar, Mumbai 400785, Maharashtra. ... First Address  
Also At: ...  
Unit No. 241 4<sup>th</sup> Floor Tower Internation A1 Technology ... Defendant  
Centre CBD Navi Mumbai 400787, Maharashtra ... Second Address  
Also At: ... Defendant  
G-3 House, No. D56, Sector Jhimil Dilshad Colony, ... Third Address  
East Delhi, 110095, Delhi

### SYMBOLIC POSSESSION NOTICE

**ICICI Home Finance** Registered Office: ICICI Bank Towers, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400051  
Corporate Office: ICICI HFC Tower, JB Nagar, Andheri Kurla Road, Andheri East, Mumbai - 400059  
Branch Office: 2nd floor, Vishwakarma Complex, Plot No. 17/18, Behind Yashwantrao Chavan, Khashambhi, Ghaziabad - 201010  
Branch Office: Ground floor, B-1/4, Community Centre, Janakpuri, New Delhi - 110058

Whereas The undersigned being the Authorized Officer of ICICI Home Finance Company Limited under the Securitization, Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of the powers conferred under section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) rules 2002, issued demand notices upon the borrowers mentioned below, to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice.  
As the borrower failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules on the below-mentioned dates. The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of ICICI Home Finance Company Limited. The Borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Sr. No.	Name of the Borrower/ Co-borrower/ Loan Account Number	Description of property/ Date of Possession	Date of Demand / Notice Amount in Demand Notice (Rs.)	Name of Branch
1.	Irsad Khan (Borrower), Rubi Begum (Co-Borrower), LHGHZ00001535074.	Property No. M-49, First Floor(without Roof/terrace Rights) Block M, Out Of Kharsa No. 29/21/2 Situated In The Area Of Village Khayala Known As Sham Nagar New Delhi Delhi 110018, Area Measuring 133 Sq.Yrds. Bounded By:- North: Front Side Unit Then Road 30 Ft. Wide, South: Gali 10ft. Wide, East: Plot No. 106, West: Plot No.107./ Date of Possession- 06-Jan-25	15-10-2024 Rs. 59,42,393.6/-	Ghaziabad (Kashambhi)
2.	Ashok Kumar Grover (Borrower), Saraj Grover (Co-Borrower), LHDWJ00001472155.	Plot No S-106,1st Floor, Back Side(without Roof/ Terrace Right), out of Kharsa No. 34 Situated In The Area Of Village Bindapur Colony Known As S Block, Parampuri, Uttam Nagar, New Delhi- 110059 Area Measuring 60 Sq. Yrds. out of Total Measuring Area 125 Sq. Yrds., Bounded By:- North: Front Side Unit Then Road 30 Ft. Wide, South: Gali 10ft. Wide, East: Plot No. 106, West: Plot No.107./ Date of Possession- 06-Jan-25	15-10-2024 Rs. 97,431.62/-	West Delhi- Janakpuri
3.	Ashok Kumar Grover (Borrower), Saraj Grover (Co-Borrower), LHDWJ00001472419.	Plot No S-106, 1st Floor, Back Side(Without Roof/ Terrace Right), out of Kharsa No. 34 Situated In The Area Of Village Bindapur Colony Known As S Block, Parampuri, Uttam Nagar, New Delhi- 110059 Area Measuring 60 Sq. Yrds. out of Total Measuring Area 125 Sq. Yrds., Bounded By:- North: Front Side Unit Then Road 30 Ft. Wide, South: Gali 10ft. Wide, East: Plot No. 106, West: Plot No.107./ Date of Possession- 06-Jan-25	15-10-2024 Rs. 27,92,822.2/-	West Delhi- Janakpuri

The above-mentioned borrowers(s)/ guarantors(s) are hereby given a 30 day notice to repay the amount, else the mortgaged property shall be sold on the expiry of 30 days from the date of publication of this Notice, as per the provisions under the Rules 8 and 9 of Security Interest (Enforcement) Rules 2002.  
Date: January 09, 2025, Authorized Officer,  
Place: New Delhi, Uttam Nagar ICICI Home Finance Company Limited

### LIC Housing Finance Limited

C-98, 1st Floor, Upasana Tower, Subhash Marg, C-Scheme, Jaipur Mob. No.: 9602400111

### APPENDIX IV- (Rule 8(1)) POSSESSION NOTICE (For Immovable Properties)

Whereas The undersigned being the Authorized Officer of the LIC Housing Finance Limited, under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued demand notice on below mentioned date calling upon the below mentioned borrowers to repay the amount mentioned in the notice as given in the list here in below within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described here-in below in exercise of powers conferred on him under sub section (4) of section 13 of act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, on below mentioned dates. The borrowers in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property, and any dealings with the property will be subject to the charge of the LIC Housing Finance Limited for amount mentioned in the list given below and future interest & expenses thereon. The Borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of Section 13 of the Act in respect of time available, to redeem the secured assets.

Sr. No.	Name of Borrowers/ Guarantor & Loan A/c No.	Description of the Immovable Properties	Demand Notice Date	Outstanding Amount
1.	1. Mr. Waseem Ahmed (Applicant), Ms. Huma Shaameem (Co-Applicant), Mr. Shamim Ahmed (Guarantor) Loan A/c No.: 323030006897 2. Mr. Waseem Ahmed (Applicant), Ms. Huma Shaameem (Co-Applicant), Mr. Shamim Ahmed (Guarantor) Loan A/c No.: 323030006899	All that part and parcel of the property bearing Flat No T-51474, 5th Floor, Phase VI, Rangoli Gardens Village Kanakpura, Jaipur, Rajasthan and admeasuring 850.00 Sq. Ft. and bounded as follows:- By East:- Own Land and Other Colony, By West:- Land's By North:- Sector Road, By South:- Laxmi Nagar,	10.09.2024  Possession Date 06.01.2025	Rs. 16,37,032.01/- (Rupees Sixteen Lakh Thirty seven Thousand Thirty Two And One Paise Only) Under Loan A/c 323030006897 Rs. 89,73,191.61/- (Rupees Eighty Nine Lakh Seventy three Thousand One Hundred Ninety One Rupees and Six Paise Only) Under Loan A/c 323030006899 Total Rs. 86,10,223.82/- (Rupees Eighty Six Lakh Ten Thousand Two Hundred Twenty Three And Sixty Two Paise Only) as on 10/09/2024 and future interest & expenses thereon.
2.	Mrs. Gita Devi Gupta (Applicant), Mr. Kapil Kumar Agarwal (Co-Applicant) Loan A/c No.: 323030007054	All that part and parcel of the property bearing Flat No G-3, Ground Floor, Constructed Over Plot No 47, 48, Alka Puri Niwaru Road, Jaipur, Rajasthan and admeasuring 850.00 Sq. Ft. and bounded as follows:- Plot No. 47 Bounded By:- By East:- Plot No. 48 Bounded By:- By East:- Plot No. 29 By West:- Road 9Mtr. By North:- Plot No. 49, By South:- Plot No. 47	22.04.2024  Possession Date 07.01.2025	Rs. 14,73,013.74 (Fourteen Lakh Seventy Three Thousand Thirteen Rupees and Seventy Four Paise only) as on 22/04/2024 and future interest & expenses thereon Under Loan A/c No. 323030007054
3.	Mr. Narendra Sharma- Legal Heir Of Late Applicant Smt. Radha Sharma, Mr. Ashutosh Sharma- Legal Heir Of Late Applicant Smt. Radha Sharma, Mr. Avinash Sharma- Legal Heir Of Late Applicant Smt. Radha Sharma, Mr. Suresh Kumar Sharma (Guarantor) Loan A/c No.: 329900003362	All that part and parcel of the property bearing Plot No 7-J-21, Chandar Shekhar Azad Nagar, Bhiwara, Rajasthan and admeasuring 750.00 Sq. Ft. and bounded as follows:- By East:- Road 7.50Mtr, By West:- Plot No 7-J-10, By North:- Plot No 7-J-20, By South:- Plot No 7-J-22	20.08.2024  Possession Date 06.01.2025	Rs. 15,65,563.75 (Fifteen Lakh Sixty Five Thousand Five Hundred Sixty Three Rupees and Seventy Five Paise only) as on 20.08.2024 and future interest & expenses thereon Under Loan A/c No. 329900003362

Date: 06.01.2025 & 07.01.2025 Place: Jaipur, Bhiwara Sd/- Authorized Officer, LIC Housing Finance Limited

**PSPCL Punjab State Power Corporation Limited**

Regd. Office: PSEB Head Office, The Mall Patiala- 147001  
Corporate Identity No. U40109PB2010SGG033813,  
Website: www.pspcl.in Mobile No. 96461-10914

E-Tender Enq. No. 592/P-1/EMPW-12808 Dated: 02.01.2025

Dy.Chief Engineer/ Headquarter (Procurement Cell-1) GGSSTP Roopnagar invites E-Tender ID No. 2025\_POWER\_132292 -1/ for placing a yearly running contract for providing 60 No drivers possessing heavy vehicle driving license for operation of fire tenders (round the clock in four 03 shifts and general shift) for firefighting services at GGSSTP. For detailed NIT & Tender Specification please refer to https://eproc.punjab.gov.in from 03.01.2025 from 05.00 PM onwards.

Note: Corrigendum & addendum, if any will be published online at https://eproc.punjab.gov.in  
76155123/790/2023/40529 RTP-02/25

### STATE BANK OF INDIA

Appendix - II-A and Appendix - IV-A (See Proviso to rule 8(2) and 8(6))  
Sale Notice for Sale of Movable & Immovable Properties Under SARFAESI Act Read with Proviso to Rule 6(2) & 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules)

E-Auction Sale Notice for Sale of Movable & Immovable Assets under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 6(2) and Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.  
Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described the movable/immovable property mortgaged to the Secured Creditor, the Physical possession of which has been taken by the Authorised officer of State Bank of India, Stressed Assets Recovery Branch (SARB), Jaipur (Raj), the secured creditor will be e-auctioned on "As is where is", "As is what is", "whatever there is" and "without recourse" basis on 24.01.2025, for recovery of Rs. 10,32,42,163/- (Rupees Ten Crore Thirty Two Lakh Forty Two Thousand One Hundred Sixty Three Only) as on 01.03.2024 plus further interest, cost, charges & other expenses etc. due to the State Bank of India, Stressed Assets Recovery Branch (SARB), Jaipur (Raj.) due to the secured creditor from M/s S.V.M Oil Mills Pvt. Ltd. Directors/ Guarantors (Sh. Satish Chand Goyal S/o Late Sh. Ramesh Chand Goyal, Sh. Ravi Kumar Goyal S/o Sh. Satish Chand Goyal, Smt. Manju Rani Goyal W/o Sh. Satish Chand Goyal, Smt. Rajni Goyal W/o Sh. Ravi Kumar Goyal and Smt. Meera Devi Goyal W/o Sh. Vishnu Chand Goyal).  
Interested bidder may deposit Pre-Bid EMD with e-bid by before the close of e-Auction. Credit of Pre-bid EMD shall be given to the bidder only after receipt of payment in e-bidder's Bank account and updation of such information in the e-auction website. This may take some time as per banking process and hence bidders, in their own interest, are advised to submit the pre-bid EMD amount well in advance to avoid any last-minute problem.

Description of the Immovable Properties	Reserve Price & EMD Amount	Time
<b>Lot (AB)-</b> All that part and parcel of Equitable Mortgage of Factory Land and Building situated at G-1 193 to 196 Brij Industrial Area, Bharatpur. Admeasuring 4184 Sq. Mtr. In the name of M/s S.V.M Oil Mills Pvt. Ltd. Bounded by:- North - Road, South - Plot No. G1-192, East - Road, West - Plot No. E-187 & E-188 & Plant & Machinery in the factory premises of SVM Oil Mills Pvt Ltd situated at G-1, 193 to 196 Brij Industrial Area, Bharatpur	Rs. 6,26,00,000/- (Rs. Six Crore Twenty Six Lakh Only)	10:00 AM to 12:00 PM
<b>Lot (A)-</b> Plant & Machinery in the factory premises of SVM Oil Mills Pvt Ltd situated at G-1, 193 to 196 Brij Industrial Area, Bharatpur (Applicable GST as per prevailing provisions)	Rs. 62,60,000/- (Rs. Sixty Two Lakhs Sixty Thousand Only) Rs. 1,36,00,000/- (Rs. One Crore Thirty Six Lakh Only) Rs. 13,60,000/- (Rs. Thirteen Lakhs Sixty Thousand Only)	1:00 PM to 04:00 PM
<b>Lot (B)-</b> All that part and parcel of Equitable Mortgage of Factory Land and Building situated at G-1, 193 to 196 Brij Industrial Area, Bharatpur Admeasuring 4184 Sq. Mtr. In the name of M/s S.V.M Oil Mills Pvt. Ltd. Bounded by:- North - Road, South - Plot No. G1-192, East - Road, West - Plot No. E-187 & E-188	Rs. 4,90,00,000/- (Rs. Four Crore Ninety Lakh Only) Rs. 49,00,000/- (Rs. Forty Nine Lakh Only)	1:00 PM to 04:00 PM

For detailed Terms and Conditions of the sale, please refer to the link provided in State Bank of India, Stressed Assets Recovery Branch (SARB), Jaipur (Raj.) Secured Creditor's https://sbi.co.in/web/sbi-in-the-news/auction-notices/sarfaesi-and-others and https://E-bkraj.in/e-auction-psb/Home Date: 07.01.2025 For STATE BANK OF INDIA AUTHORISED OFFICER

**Union Bank of India** Regional Office: Kota Auction Sale Notice

The under mentioned persons are hereby informed that they have failed to pay off the liability in the loan accounts. Notices sent to them by Registered Post have been returned undelivered, to the Bank. They are therefore requested to pay off the liability and other charges and redeem the pledged securities on or before date 27.01.2025 failing which the said securities will be sold by the Bank in public auction at the cost of the borrower at the Bank's premises (Mentioned below) at 12 Noon to 05.00 PM on 28.01.2025 or on any other convenient date thereafter without further notice, at the absolute discretion of the Bank.

Sr. No.	Branch	Auction premises	Date of Loan	Loan Number	Name and address of the borrower
1.	BUNDI Branch (16542)	UNION BANK OF INDIA, BUNDI BRANCH (SNT Complex, Bypass Road Bundi)	19.02.2022	1654200000227	HARDYAL GOCHER, 280 Purane Chungi Nake, Evpura Bundi Rajasthan, 323001
2.	BUNDI Branch (16542)	UNION BANK OF INDIA, BUNDI BRANCH (SNT Complex, Bypass Road Bundi)	15.02.2022	251316540000070	HARDYAL GOCHER, 280 Purane Chungi Nake, Evpura Bundi Rajasthan, 323001
3.	KARAUALI Branch (29511)	UNION BANK OF INDIA KARAUALI BRANCH (Infront Of Mahindra Show Room, Masapur Chungi)	18.12.2022	295116540000041	SANJAY KUMAR MEENA S/O MEGHRAJ MEENA, Gokalpur Kurgaoon Sapotra Karauli 322255

Date: 07.01.2025 Authorised Officer  
Note: Amount outstanding should include all liabilities of the party under Gold Loans as well as any other loan/credit facility.

**ANAND RATHI** Anand Rathi Global Finance Ltd Express Zone, A Wing, 10th Floor, Western Express Highway, Diagonally Opposite Oberoi Mall, Goregaon (E), Mumbai -400063.

(1) Mr. Sumeet Khanna (Borrower), (2) Mrs. Ratika Vahla (Co-Borrower) Date 07.01.2025  
(3) Mr. Satish Raj Khanna (Borrower), (4) M/s. Satish Industrial Corporation (Co-Borrower) B-2/4 Second Floor E Block Near Savitri Cinema, Greater Kailash-2, New Delhi 110048  
SUB-Redemption Notice of 30 days for redemption/sale of immovable assets under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 ("Act") read with proviso to rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 ("Rules").  
REF: Loan Account No. APR100007546  
Dear Sir/ Madam,  
This has reference to all earlier legal action initiated by Anand Rathi Global Finance Limited for the purpose of enforcing the secured assets for recovery of outstanding dues in exercise of power under Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and the Rule made there under. You have failed to make payment towards the discharge of your liabilities to the Loan Account No. APR100007546 as proposed to sell the below mentioned immovable secured asset through E-Auction or Private Treaty under the provisions of the SARFAESI Act, 2002. It is again brought to your notice that possession of the property will be taken once the Order is received from the Court.  
This notice is given to you the addressee in compliance of rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 towards the right to redemption under SARFAESI Act by paying the outstanding dues by you with cost and charges and expenses and further contractual interest till payment, due and payable against your loan account at any time on or before 30 days from this notice as the present notice would end on expiry of 30 days from the date of receipt of this Notice and you are hereby informed and notified that the said property in question shall be sold by way of e-auction or through private treaty.  
It may be added that an amount of Rs. 1,03,75,001/- (Rupees One Crore Three Lakh Seventy Five Thousand and One Only) is per the Demand notice under sub-section 2 of section 13 of SARFAESI Act 2002 dated 15/10/2024, outstanding and payable along with further contractual interest till payment, due and payable against your loan account, which you may please take a note of.

Property Details: Free Hold, DDA 5FS, First and Second Floor, Duplex, Flat No 195 Mandankri Enclave Alakhanda New Delhi- 110019, India. East: Open, West: Road, North: Stairs/Open, South: Other Property For and on behalf of North: Gali 12 Ft Road South: Plot of Rameshwar Authorized Officer(AnandRathi Global Finance Limited)

## Coforge Coforge Limited

CIN: L72100DL1992PLC048753

Regd Office: 8, Balaji Estate, Third Floor, Guru Ravi Das Marg, Kalkaji, New Delhi-110019. Ph: 91 (11) 41029297  
Email: investors@coforge.com Website: https://www.coforge.com

### NOTICE OF LOSS OF SHARE CERTIFICATE

Notice is hereby given that the following share certificates issued by the Company is reported lost/misplaced by the shareholder/s. The shareholder/s has thereof applied to the Company for the issuance of Letter of Confirmation in lieu of Duplicate share certificate:

Name of the Registered holder	Folio No.	Jointholder	No. of Shares	Certificate No.	Distinctive Nos.
S RAVINDRAN	365	NA			



